

4
14 17c



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

157] नई दिल्ली, रविवार, जुलाई 1, 1973/आशाढ़ 10, 1895

157] NEW DELHI, SUNDAY, JULY 1, 1973/ASADHA 10, 1895

इस भाग में अलग-अलग संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st July 1973

G.S.R. 331(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 128/73-Central Excises, dated the 1st June, 1973, the Central Government hereby fixes a tariff value of two hundred and twenty rupees per quintal for sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty *ad valorem*.

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar re-exported by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

[No. 144/73]

S. R. NARAYANAN, Under Secy.

वित्त भंडारण

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1973

सा० का० नि० 331(अ) — केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 1 जून, 1973 की अधिसूचना संख्या 128/73 के० उ०शु को अतिष्ठित करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 1 की उपमद संख्या (1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क के प्रभाव चीनी के लिए दो सौ सत्तर रुपये प्रति क्विन्टल मूल्य एतद्द्वारा नियत करती है।

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन बिस्त्री की जाने के लिए अपेक्षित चीनी पर लागू नहीं होगी।

[संख्या 144/73]

एस० आर० नारायणन, अवर सचिव।

